

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 401]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर 2015—आश्विन 7, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2015

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-बी-4-13-2015-2-पांच.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-13--2015-2-पांच, (19), दिनांक 28 सितम्बर, 2015 “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण) क्रमांक 396, दिनांक 28-9-2015 में प्रकाशित हुई है, का शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाता है:

अशुद्ध मुद्रित शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ जिसमें वह शब्द आये (2)	राजपत्र के पृष्ठ एवं पंक्ति में अशुद्ध शब्द आये (3)	शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं (4)
मेसर्स रूचि एक्रोनी प्रा. लि.	791	संशोधन के पंक्ति 5	मेसर्स रूचि एक्रोनी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.